

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 159]	नई दिल्ली, बुधवार, जून 28, 2017/आषाढ़ 7, 1939
No. 159]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 28, 2017/ASADHA 7, 1939

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 37/1/(XII)/2017/टी.—राष्ट्रपति का दिनांक 27 जून, 2017 का निम्नलिखित आदेश सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

“संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (1) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्वारा लोक सभा को सोमवार, 17 जुलाई, 2017 को पूर्वाह्न 11.00 बजे नई दिल्ली में अधिवेशन के लिए आमंत्रित करता हूँ।

27 जून, 2017

प्रणब मुखर्जी

राष्ट्रपति “

अनूप मिश्र, महासचिव

**LOK SABHA SECRETARIAT
NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th June, 2017

No. 37/1/(XII)/2017/T.—The following order by the President dated the 27th June, 2017 is published for general information:—

“In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution, I hereby summon the Lok Sabha to meet at New Delhi on Monday, the 17th July, 2017 at 11.00 A.M.

June 27, 2017

PRANAB MUKHERJEE

PRESIDENT”

ANOOP MISHRA, Secy. General